



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2005/फाल्गुन 26, 1926

No. 259]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2005/PHALGUNA 26, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2005

का.आ. 326(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 163 और धारा 164 और वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 109 द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 41) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 मार्च, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 41) प्रवृत्त होगा।

[सं. 10/2005-सीएसटी-फा. सं. 19/211/96-एसटी]

दिनेश कपिला, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2005

S.O. 326(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Central Sales Tax (Amendment) Act, 2001 (41 of 2001) as amended by the Sections 163 and 164 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003) and Section 109 of the Finance Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government hereby appoints the 17th day of March, 2005, as the date on which the Central Sales Tax (Amendment) Act, 2001 (41 of 2001) shall come into force.

[No. 10/2005-CST-F. No. 19/211/96-ST]

DINESH KAPILA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2005

का.आ. 327(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1190(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2001 को अधिक्रमण करते हुए यह घोषणा करती है कि उस तारीख से ही जिसको केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 43) प्रवृत्त होगा और ऐसे समय तक जब तक उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन केन्द्रीय विक्रय कर अपील प्राधिकरण का गठन किया जाता है, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के साथ पठित धारा 6क के अधीन आने वाले अंतर-राज्यिक विवादों का निपटारा करने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245-ए के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, केन्द्रीय विक्रय कर अपील प्राधिकरण भी होगा।

[सं. 11/2005-सीएसटी-फा. सं. 19/211/96-एसटी]

दिनेश कपिला, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2005

S.O. 327(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 read with Sub-section (1) of Section 19 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) (hereafter referred to as the said Act) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number S.O. 1190(E) dated the 3rd December, 2001, the Central Government hereby declares that the Authority for Advance Rulings constituted under Section 245-O of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall also be the Central Sales Tax Appellate Authority to settle inter-State disputes falling under Section 6A read with Section 9 of the Central Sales Tax Act, 1956 on and from the date on which the Central Sales Tax (Amendment) Act, 2001 (41 of 2001) shall come into force and till such time as the Central Sales Tax Appellate Authority is constituted under Section 19 of the said Act.

[No. 11/2005-CST-F No. 19/211/96-ST]

DINESH KAPILA, Under Secy.